



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251784
CG-DL-E-03022024-251784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 409]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

का.आ. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर ता.चंद्रपुर जि.चंद्रपुर (NH930) के कि.मी. 249.784 किमी से 250.204 किमी. महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH930 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय	राष्ट्रीय	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	1 नंदगुर

	अधिकारी, चंद्रपुर	राजमार्ग संख्या NH930 के कि.मी 249.784 से कि.मी 250.204 तक				2 अजयपुर
--	----------------------	---	--	--	--	----------

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2022-23/47]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2024

S.O. 437(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 249.784 to 250.204 of Office of Sub Divisional Officer, Chandrapur Tal.chandrapur dist.chandrapur (NH930) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH930 in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer, Chandrapur	NH930 KM 249.784 TO KM 250.204	MAHARASHTRA	CHANDRAPUR	Chandrapur	1 Nandgur 2 Ajaypur

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/47]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.